

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 अगस्त 2019—श्रावण, 18, शक 1941

## भाग २

### स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

परिशिष्ट-5 (ब)

रतलाम, दिनांक 10 जून 2019

क्र.-3009-2019.- मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 30 एवं धारा 23 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-2 में अंकित जिला पंचायत को स्तंभ 3 में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने वर्णित स्तंभ 4 में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ :-

अनु. क्र	जिला का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	रतलाम	1	(विकास खण्ड रतलाम) बोदिना, खोखरा, दिवेल, नौगावाकला, पलदुना, भारोडा, कान्डरवासा, बरबोदना, सेमलिया, नगडदा, मोरदा, धमोत्तर, धौसवास, अमलेटा, बाजेडा, असरगार, पंचेड, ईशरथुनी, डेलनपुर, गोपालपुरा वार्ड 10 की रघुनाथगढ, गुणावद, सीखेडी, भदवासा, बडोदा, मेवासा,	अजा अजजा पिछडावर्ग महिलाअजा महिलाअजजा महिलापि.वर्ग महिलासामान्य	02 06 04 01 03 02 02

	2	रामपुरिया,बिबडोद,जुलवानिया, जामथुन,पलसोडा,बंजली,सेजावता, घटला,जडवासाखुर्द,जडवासाकला, सिमलावदाखुर्द,मलवासा,हतनारा, ईटावाखुर्द,शिवपुर,नायन,कमेड, नौगांवाजागीर,बम्बोरी,लुनेरा,बडोदिया, बांगरोद		
	3	सेवरिया,लपटिया,सिनोद,कोटडी,बदनारा, चौराना,नगरा,सनावदा,सालाखेडी,रत्तागढखेडा, झरखेडी,हरथली,सागोद,पलसोडी,राजपुरा, मोरवनी, लालगुवाडी,प्रीतमनगर,ईटावामाताजी, धराड,भाटीबडोदिया,नलकुई,धानासुता,ढीकवा, कलमोडा,कनेरी		
	4	बिलपांक,दंतोडिया,मउ,उमरथाना,अम्बोदिया, धोलका,जमुनिया,कुआझागर,आलनीया,मुन्दडी, पलास,सरवनीजागीर,उमरन,पिपलखुटा, पिपलोदी,बिरमावल,सरवड,सिमलावदा, सुजलाना,तीतरी,करमदी,मांगरोल		

	5	<b>(विकास खण्ड आलोट)</b> केलुखेडा,सुरजना,बरखेडाकला,मोरिया,रजला, मजनपुर,कानडिया,थुरिया,खजुरीदेवडा, हिम्मतखेडी,देवगढ,कराडिया,पिपलखेडी, जमुनियाशकर,पिपलीया,सिसेदिया,पिपलियापंथ, शिसाखेडी,बर्डियाराठोर,मूंज,बोरखेडी,भेजखेडी, मल्हारगढ,दूधिया,पिपलियामारू,कलसिया,गोयल, गुराडिया,खजुरी सोलंकी,धरोला,गुलबालोद, माउखेडी,खामरीया		
	6	रणायरा,सेमलिया,नेगरून,करवाखेडी, लसुडियाखेडी, मनुनिया,भूतिया,बगुनिया, जोयन,रावतखेडा,भीम,निपानिया, राजगुरू,पाटन,जहानाबाद,हिगडी,शेरपुरखुर्द, कछालिया, भैसाना,सांगाखेडा,आक्याकला, कोठडीताल,बिसलखेडा, तालोद,माधोपुर,ऐरवास, मालिया,ताल,थमगुराडिया, बामनखेडी,बरखेडाखुर्द, असावता		
	7	मुण्डलाकला,भरमियाखेडी,खारवाखुर्द,किशनगढ, अरवलिया सोलंकी,रिछा,कन्धारिया, डाबडीया,निपानियालीला,पंथ पिपलोदा, चापलाखेडी,कीटखेडी,लसुडिया,सुरजमल, तालखेडा,खेताखेडी,लुनी,पिपलिया तुखार, खारवाकला,दौलतगंज,कोठडीखारवा, मण्डावल, बरसी,डेलवास,कसारी चौहान,भेसोला, गुरूखेडी, मिनावदा,कोलुखेडी		

	8	(विकास खण्ड जावरा) पिपल्याजोधा, हनुमन्तया, मार्तण्डगंज, धतरावदा, पिपलियासीर, शक्करखेडी, माण्डवी, असावती, मरम्या, नेतावली, शीछाचान्दा, गोदीधर्मसी, गोदीशंकर, रोला, मोरिया, ढोढर, कलालिया, मुंडलाराम, भेसाना, मोयाखेडा, पविलिया,		
	9	उणी, बन्डवा, पीरहिगोरिया, हाटपीपलीया, सिंदुरिक्या, बर्डियागोयल, अर्जला, बटवाडिया, लोद, मिन्डली, खजुरिया, डूमाहेडा, खेजनखेडा, लसुडियाजंगली, निम्बोदिया, गुर्जरबर्डिया, कामलिया, गोठडा, रिंगनोद, बिनोली, आलमपुरठीकरिया, बनवाडा, रोजाना, मीनाखेडा,		
	10	लुहारी, नयानगर, बहादुरपुरजागीर, आक्याबेनी, भूतेडा, लालाखेडा, हिंगोरियाधांधू, निमन, उपलई, राजाखेडी, गडगडिया, रेवास, केरवासा, डोडियाना, बडावदी, ललीयाना, सादाखेडी, पाताखेडी, सरसी, वार्ड 8 से बोरदा, वार्ड 9 से झालवाखेडाखेडी, भीमाखेडी		

	11	मावता, रणायरा, जडवासा, माननखेडा, बरखेडी, पिंगराला, रिछादेवडा, बछौडिया, रानीगांव, नवेली, भाटखेडा, चिकलाना, कालुखेडा, कंसेर, रियावन, धतुरीया, भाकरखेडी, चिपिया, तालीदाना, निपानिया, मामटखेडा, आक्यादेह, शुजापुर, पंचेवा, नोलखा, माउखेडी, जेठाना		
	12	काबुलखेडी, धामेडी, राकोदा, अयाना, बाराखेडा, बरगढ, हरियाखेडा, उपरवाडा, बोरखेडा, बडायलामाताजी, कमलाखेडा, गुडरखेडा, उम्मेदपुरा, शेरपुर, नांदलेटा, कंचनखेडी, आकतवासा, सोहनगढ, हतनारा, कुशलगढ, मचुन, आम्बा, सुखेडा वार्ड नं0 10 से हसनपालिया, चौरासी, बडायला		
	13	(विकास खण्ड बाजना) बाजना, छावनीभाभर, ईमलीपाडा, ठिकरीया, भुरीघाटी, गढीगमना, कुंडल, भोजपुरा, भुतपाडा, संगेसरा, कुन्दनपुर, गढीकटाराकला, करबलखोरा, हेवडादामाकला, भडानकला, झरनिया, उकाला, पिपलीपाडा, खेरदा, रतनगढपीठ, चन्द्रगढझोली, रायपाडा, झरनिया, केलकच्छ, मानपुरा, सन्दला, राजापुरामाताजी, बिंटी, चिकनी, घोडाखेडा वार्ड 14 से छावनीझोडिया, मनासा, देवली, जाम्बुखादन, आम्बापाडा,		

	14	खेडी, अमरपुराकला, बरखेडा,रूपापाडा, रावटी,बीढ, सिंगत,जाबड,देवला,हरथल, गढावदिया,तम्बोलिया,कोटडा,गुजरपाडा,डाबडी, मलवासी, रानीसिंग,सेलजदेवदा, नाहरपुरा, नायन, मौलावा,कुडियापाडा, बजरंगढ,सादेडा, वार्ड 15 से उमर,आमलीपाडा,बिलडी,घटालिया,मरगुल,भग्गासे लोद का टापरा,देथला		
	15	(विकास खण्ड सैलाना) सासर,ठिकरीया, कांगसी,भामट,सुण्डी, बरडा, दौलतपुरा,केलदा,डूगरापुंजा,शिवगढ, बावडी,तालाब बोर्डे भिलान, कुआझागर, खेडीकला,बासिन्द्रा, बायडी,बोरखेडा उर्फ रामगढ वार्ड 16 से अडवानिया, भीलो की खेडी नारायणगढ, सकरावदा, सेमलखेडा		
	16	अमरगढ,उडेर,महापुरा,कुण्डा,सलवानिया,गराड, सालरापाडा, सरवन,गुडभेली,बोरदा, सैरा,बेडदा, आम्बापाडा,लूणी,चन्देरा,पाटडी, बल्लीखेडा, कोलपुरा,इन्द्रावलखुर्द, चावडाखेडी भिलान,पुन्याखेडी, बडीखुर्द, मकोडियारूण्डी,करिया,, कोटडा,,		

वार्ड नं0 10 से जनपद पंचायत रतलाम की रघुनाथगढ, गुणावद, सीखेडी, भदवासा, बडोदा, मेवासा,  
को जनपद पंचायत रतलाम के वार्ड 01 मे सम्मिलित किया गया ।

वार्ड 16 से जनपद पंचायत सैलाना की अडवानिया, भीलो की खेडी नारायणगढ, सकरावदा,  
सेमलखेडा को जनपद पंचायत सैलाना के वार्ड 15 मे सम्मिलित किया गया ।

वार्ड नं0 10 से जनपद पंचायत पिपलौदा की हसनपालिया,चौरासी बडायला को जनपद पंचायत  
पिपलौदा वार्ड 12 मे सम्मिलित किया गया ।

वार्ड नं0 14 से जनपद पंचायत बाजना छावनीझोडिया, मनासा, देवली, जाम्बुखादन, आम्बापाडा, को  
जनपद पंचायत बाजना वार्ड 13 मे सम्मिलित किया गया ।

जनपद पंचायत बाजना वार्ड 15 से उमर, आमलीपाडा, बिलडी, घटालिया, मरगुल, भग्गासेलोद का  
टापरा, देथला को जनपद पंचायत बाजना के वार्ड 14 मे सम्मिलित किया गया ।

जनपद पंचायत जावरा के वार्ड क्रमांक 8 से बोरदा, झालवा एवं वार्ड क्रमांक 9 से खेडाखेडी,  
भीमाखेडी को जनपद पंचायत जावरा वार्ड 10 मे सम्मिलित किया गया ।

रूचिका चौहान, कलेक्टर.

## कार्यालय, कलेक्टर (शहरी विकास), जिला गुना, मध्यप्रदेश

गुना, दिनांक 19 जुलाई 2019

क्रमांक-डूडा-वार्ड विभाजन-2019-297.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 29 एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका (वार्डों का विस्तार) नियम, 1994 के तारतम्य तथा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, भास्कर लाक्षाकार कलेक्टर, जिला गुना, नवगठित नगर परिषद् मधुसूदनगढ़ के वार्डों का विस्तार दावे आपत्ती के निराकरण उपरांत अंतिम सूची नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करता हूँ:-

वार्ड क्र०	वार्ड का नाम	जनसंख्या			चतुर्थ सीमा
		कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	
1	2	3	4	5	6
1	चन्द्र शेखर आजाद वार्ड	1310	280	10	उत्तर - उदयपुरा गांव पूर्व - सुरई वाला मंदिर दक्षिण - गुना ब्यावरा बायपास पश्चिम - नलखेड़ा गांव सम्मिलित क्षेत्र - तोरई, एवं ग्राम पंचायत नलखेड़ा का मंदिर वाला क्षेत्र
2	शहीद भगतसिंह वार्ड	1325	260	455	उत्तर - कोलारस पठार पूर्व - गोविन्दपुरा डेम दक्षिण - मधुसूदनगढ़ लटेरी बायपास रोड पश्चिम - सुरई वाला मंदिर सम्मिलित क्षेत्र - राघोपुरा, ग्राम गोविन्दपुरा ग्राम एवं नवीन आबादी क्षेत्र तोरई
3	सुभाष चन्द्र बोस वार्ड	1355	215	32	उत्तर - सिरोंज, - मधुसूदनगढ़ - ब्यावरा बायपास रोड पूर्व - गुना-भोपाल रोड दक्षिण - सुठालिया रोड पश्चिम - दगड़ा मोहल्ला सम्मिलित क्षेत्र - कराड़, दगड़ा, लोधी मोहल्ला, कुशवाह, चौपड़ा मोहल्ला
4	महाराणा प्रताप वार्ड	1386	268	175	उत्तर - लटेरी-मधुसूदनगढ़ बायपास रोड पूर्व - टेंकरी मोहल्ला दक्षिण - लटेरी रोड पश्चिम - गुना रोड सम्मिलित क्षेत्र - सिचाई कॉलोनी, कराड़ मोहल्ला, तिलक चौक, डीमर, मोहल्ला, शमशेर गली, गुर्जर मोहल्ला, राजवाड़ा मोहल्ला
5	स्वामी विवेकानन्द वार्ड	1360	575	18	उत्तर - मधुसूदनगढ़ किला पूर्व - विदिशा जिला दक्षिण - लटेरी रोड पश्चिम - डीमर गली सम्मिलित क्षेत्र - गुर्जर मोहल्ला, टेंकरी मोहल्ला रेंज मोहल्ला, सिलावट, मोहल्ला, विद्युत मण्डल कॉलोनी

6	तात्याटोपे वार्ड	1365	265	06	उत्तर - लटेरी रोड पूर्व - शक्ति मोहल्ला दक्षिण - मण्डी मैदान पश्चिम - भोपाल रोड सम्मिलित क्षेत्र - श्री कॉलोनी, मण्डी, बाजार, पंचायत मार्केट, सब्जी मार्केट
7	छत्रपति शिवाजी वार्ड	1385	417	88	उत्तर - कृषि उपज मण्डी पूर्व - नहर दक्षिण - नहर पश्चिम - चौधरी पेट्रोलपंप सम्मिलित क्षेत्र - धक्कापुरा, इन्द्रा, आवास कॉलोनी
8	रानी लक्ष्मीबाई वार्ड	1347	362	15	उत्तर - सुठालिया रोड पूर्व - भोपाल रोड दक्षिण - शान्तिधाम पश्चिम - गोपाल मंदिर गली सम्मिलित क्षेत्र - सुठालिया रोड क्षेत्र, बंगला क्षेत्र, गोपाल, मंदिर क्षेत्र, बिधोरिया क्षेत्र
9	रानी दुर्गावती वार्ड	1351	290	12	उत्तर - सुठालिया रोड पूर्व - गोपाल मंदिर गली दक्षिण - बिधोरिया रोड पश्चिम - भोपाल-ब्यावरा बायपास सम्मिलित क्षेत्र - हरिजन मोहल्ला, इमली वाले रहवासी
10	राजा हरिशचन्द्र वार्ड	1368	393	10	उत्तर - सिरौंज - ब्यावरा बायपास पूर्व - कम्पाउंडर साहव वाली गली दक्षिण - सुठालिया रोड पश्चिम - सूरजपुरा (बेचिराग गांव) सम्मिलित क्षेत्र - हेलीपेड क्षेत्र, श्रीराम कॉलोनी सक्सेना कॉलोनी, खटीक मोहल्ला, कुम्हार मोह.
11	लाला लाजपतराय वार्ड	1322	406	04	उत्तर - नदी पूर्व - सुरई वाला मंदिर दक्षिण - सुठालिया रोड पश्चिम - शान्ति धाम सम्मिलित क्षेत्र - सम्पूर्ण ग्राम नलखेड़ा (मंदिर वाले क्षेत्र का छोड़कर),
12	महात्मा गांधी वार्ड	1578	250	04	उत्तर - सुठालिया रोड पूर्व - ग्राम गणेशपुरा दक्षिण - ग्राम परवरिया पश्चिम - ग्राम गारखेड़ा सम्मिलित क्षेत्र - ग्राम श्रीपुरा, (सम्पूर्ण क्षेत्र), ग्राम मन्त, (सम्पूर्ण क्षेत्र), ग्राम परवरिया का मझरा किशनजी का पुरा
13	स्वामी दयानन्द सरस्वती वार्ड	1371	445	107	उत्तर - ग्राम मधुसूदनगढ़ की सीमा पूर्व - जिला विदिशा की सीमा दक्षिण - ग्राम बुडना की सीमा पश्चिम - ग्राम मंत की सीमा सम्मिलित क्षेत्र - गणेशपुरा, सम्पूर्ण क्षेत्र, ग्राम बधोरिया (सम्पूर्ण क्षेत्र),

14	बाल गंगाधर तिलक वार्ड	1585	598	08	उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम सम्मिलित क्षेत्र	— भडेर नदी — ग्राम बारोद — ग्राम बारोद का रामजानकी मंदिर क्षेत्र एवं शा.मा.वि.बारोद — ग्राम वीरपुरा — ग्राम परवरिया, ग्राम बारोद का रामजानकी मंदिर वाला क्षेत्र एवं शा. मा.वि.बारोद
15	देवी अहिल्या वार्ड	1583	175	236	उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम सम्मिलित क्षेत्र	— श्रीराम बेयर हाऊस बुडना — इमालिया पान मोड़ — ग्राम कीताखेडी रोड़ — ग्राम बारोद का रामजानकी मंदिर क्षेत्र — ग्राम बारोद आबादी क्षेत्र, रामजानकी मंदिर क्षेत्र (मंदिर वाले क्षेत्र की आबादी छोड़कर)
योग:-		20991	5199	1180		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
भास्कर लाक्षाकार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.